



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 नवम्बर, 2020
अग्रहायण 6, 1942 शक सम्वत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश

संख्या 4/767-2020-4-135 (महोबा)-2014
लखनऊ, 27 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-419

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैंतीस-1-94-149-94, दिनांक 9 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी-2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, किंजल सिंह, निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र०, लखनऊ, पंचायती राज अनुभाग-3, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या 2491/33-3-2014-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2020 में दी गई व्यवस्थानुसार तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ० प्र० के पत्र संख्या 4315/स्था-2(विविध पत्रावली)-2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 के क्रम में जनपद महोबा की विकास खण्ड कबरई एवं श्रीनगर की ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/264/2017-4/135(महोबा)-2014, दिनांक 5 जून, 2017 में विकास खण्ड कबरई एवं श्रीनगर की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्द्वारा स्थापित करती हूँ।

सारणी

जनपद-महोबा

क्र० सं०	पूर्व स्थिति				क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायत वार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	कबरई	कबरई देहात	कबरई देहात	कबरई देहात	1	कबरई	कबरई देहात	कबरई देहात
2	कबरई		मोचीपुरा	बघवा	2	कबरई	मोचीपुरा	बघवा
	कबरई			गौहारी		कबरई		गौहारी
	कबरई			मोचीपुरा		कबरई		मोचीपुरा
	कबरई			मरहठी		कबरई		मरहठी
3	कबरई		छानीकलां	छानीकलां	3	कबरई	छानीकलां	छानीकलां
4	कबरई		बरबई	बरबई	4	कबरई	बरबई	बरबई
	कबरई			अमरहेआई (गै०अ०)		कबरई		अमरहेआई (गै०अ०)
5	कबरई		बीलादक्षिण	बीलादक्षिण	5	कबरई	बीलादक्षिण	बीलादक्षिण
6	कबरई		महेवा	महेवा	6	कबरई	महेवा	महेवा
7	कबरई		लिलवाही	लिलवाही	7	कबरई	लिलवाही	लिलवाही
8	कबरई		सिचौरा	सिचौरा	8	कबरई	सिचौरा	सिचौरा
9	कबरई	सुरहा	सुरहा	सुरहा	9	कबरई	सुरहा	सुरहा
10	कबरई		ग्योड़ी	ग्योड़ी	10	कबरई	ग्योड़ी	ग्योड़ी
11	कबरई		कौहारी	कौहारी	11	कबरई	कौहारी	कौहारी
12	कबरई		गहरा	गहरा	12	कबरई	गहरा	गहरा
13	कबरई		बबेड़ी	बबेड़ी	13	कबरई	बबेड़ी	बबेड़ी
14	कबरई		परसहा	परसहा	14	कबरई	परसहा	परसहा
	कबरई			पिडारी		कबरई		पिडारी
	कबरई			भैस्तामाफ		कबरई		भैस्तामाफ
15	कबरई		सिंघनपुर बघारी	सिंघनपुरबघारी	15	कबरई	सिंघनपुर बघारी	सिंघनपुरबघारी
16	कबरई	पहरा	पहरा	पहरा	16	कबरई	पहरा	पहरा
17	कबरई		खरका	खरका	17	कबरई	खरका	खरका
	कबरई			बलकौरा (गै०अ०)		कबरई		बलकौरा (गै०अ०)
	कबरई			हरदुआ (गै०अ०)		कबरई		हरदुआ (गै०अ०)
18	कबरई		रैवारा	रैवारा	18	कबरई	रैवारा	रैवारा
19	कबरई		रिवई सुनैचा	रिवई सुनैचा	19	कबरई	रिवई सुनैचा	रिवई सुनैचा
20	कबरई		सुकौरा	सुकौरा	20	कबरई	सुकौरा	सुकौरा
	कबरई			नहदौरा		कबरई		नहदौरा

क्र० सं०	पूर्व स्थिति				क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायत वार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	1	2	3	4
21	कबरई		कैमाहा (बीलाउत्तर)	कैमाहा	21	कबरई	कैमाहा (बीलाउत्तर)	कैमाहा
	कबरई			बीलाउत्तर		कबरई		बीलाउत्तर
22	कबरई	मकरबई	मकरबई	मकरबई	22	कबरई	मकरबई	मकरबई
23	कबरई		टीकामऊ	टीकामऊ	23	कबरई	टीकामऊ	टीकामऊ
24	कबरई		डहरा	डहरा	24	कबरई	डहरा	डहरा
25	कबरई		रतौली	रतौली	25	कबरई	रतौली	रतौली
	कबरई			नैगवां		कबरई		नैगवां
26	कबरई	धरौन	धरौन	धरौन	26	कबरई	धरौन	धरौन
27	कबरई		रैपुराखुर्द	रैपुराखुर्द	27	कबरई	रैपुराखुर्द	रैपुराखुर्द
	कबरई			भटेवर		कबरई		भटेवर
28	कबरई		उटियाँ	उटियाँ	28	कबरई	उटियाँ	उटियाँ
29	कबरई		गंज	गंज	29	कबरई	गंज	गंज
	कबरई			झिरसहेवा		कबरई		झिरसहेवा
30	कबरई		बम्हौरीकाजी	बम्हौरीकाजी	30	कबरई	बम्हौरीकाजी	बम्हौरीकाजी
31	कबरई		जुझार	जुझार	31	कबरई	जुझार	जुझार
	कबरई			बरी		कबरई		बरी
32	कबरई	कहरा	कहरा	कहरा	32	कबरई	कहरा	कहरा
33	कबरई		सिरसीकलां	सिरसीकलां	33	कबरई	सिरसीकलां	सिरसीकलां
34	कबरई		कुलकुआँ	कुलकुआँ	34	कबरई	कुलकुआँ	कुलकुआँ
	कबरई			घण्डुवा		कबरई		घण्डुवा
35	कबरई		खम्हरिया	खम्हरिया	35	कबरई	खम्हरिया	खम्हरिया
	कबरई			खिरुही		कबरई		खिरुही
36	कबरई		पचपहरा	पचपहरा	36	कबरई	पचपहरा	पचपहरा
	कबरई			नूरपुर (गै0आ0)		कबरई		नूरपुर (गै0आ0)
37	कबरई		तिन्दुही	तिन्दुही	37	कबरई	तिन्दुही	तिन्दुही
38	कबरई		अकबई	अकबई	38	कबरई	अकबई	अकबई
39	कबरई		अटघार	अटघार	39	कबरई	अटघार	अटघार
40	कबरई	चिचारा	चिचारा	चिचारा	40	कबरई	चिचारा	चिचारा
41	कबरई		बरभौली	बरभौली	41	कबरई	बरभौली	बरभौली
42	कबरई		तमौरा	तमौरा	42	कबरई	तमौरा	तमौरा

क्र० सं०	पूर्व स्थिति				क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/ क्षेत्र पंचायत का नाम	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायत वार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/ क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	1	2	3	4
43	कबरई		बहिगा	बहिगा	43	कबरई	बहिगा	बहिगा
44	कबरई		सिरसीखुर्द	सिरसीखुर्द	44	कबरई	सिरसीखुर्द	सिरसीखुर्द
45	कबरई		मवईखुर्द	मवईखुर्द	45	कबरई	मवईखुर्द	मवईखुर्द
46	कबरई		खन्ना	खन्ना	46	कबरई	खन्ना	खन्ना
47	कबरई		बन्नी	बन्नी	47	कबरई	बन्नी	बन्नी
48	कबरई		पुरा	पुरा	48	कबरई	पुरा	पुरा
					49	कबरई	श्रीनगर	श्रीनगर
						कबरई		टोटियाबरा (गै०आ०)
					50	कबरई	बिलरही	बिलरही
					51	कबरई	ढिकवाहा	ढिकवाहा
					52	कबरई	मवई	मवई
					53	कबरई	कैमाहा	कैमाहा
					54	कबरई	इमिलिया	इमिलिया
					55	कबरई	बिलखी	बिलखी
					56	कबरई	भण्डरा	भण्डरा
						कबरई		गोपालपुरा (गै०आ०)
					57	कबरई	सिजरिया	सिजरिया
					58	कबरई	डिगरिया	डिगरिया
					59	कबरई	सिजवाहा	सिजवाहा
					60	कबरई	ख्योरइया ज्योरइया	ख्योरइया ज्योरइया
					61	कबरई	बरा	बरा
					62	कबरई	तिंदौली	तिंदौली
					63	कबरई	सलारपुर	सलारपुर
					64	कबरई	सिजहरी	सिजहरी
					65	कबरई	बसौरा	बसौरा
					66	कबरई	रैपुराकलां	रैपुराकलां
						कबरई		बनियातला महानपुरा
					67	कबरई	मिरतला	मिरतला
						कबरई		रहेलिया
						कबरई		बम्हौरी गुसाई

क्र० सं०	पूर्व स्थिति				क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायत वार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	1	2	3	4
					68	कबरई	मामना	मामना
						कबरई		मुडेहरा
					69	कबरई	मझलवारा	मझलवारा
					70	कबरई	पलका	पलका
					71	कबरई	पवा	पवा
						कबरई		मुरानी
					72	कबरई	पचपहरा	पचपहरा
					73	कबरई	करहराकलां	करहराकलां
					74	कबरई	चाँदो	चाँदो
						कबरई		चन्दपुरा
					75	कबरई	छिकहरा	छिकहरा
					76	कबरई	नथूपुरा	नथूपुरा
					77	कबरई	बरातपहाड़ी	बरातपहाड़ी
					78	कबरई	बिलबई	बिलबई
					79	कबरई	पिपरामाफ	पिपरामाफ
					80	कबरई	उरवारा	उरवारा
					81	कबरई	चितैया	चितैया
						कबरई		दुडैया
					82	कबरई	अतरारमाफ	अतरारमाफ
						कबरई		समशेरा फुटेरा
					83	कबरई	लुहेड़ी	लुहेड़ी
						कबरई		हिलुवा
					84	कबरई	ननौरा	ननौरा
						कबरई		करपहाड़िया
						कबरई		सेलामाफ
					85	कबरई	पसवारा	पसवारा
						कबरई		थाना
					86	कबरई	शाहपहाड़ी	शाहपहाड़ी
					87	कबरई	बीजानगर	बीजानगर

क्र० सं०	पूर्व स्थिति				क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/ क्षेत्र पंचायत का नाम	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायत वार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/ क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	1	2	3	4
					88	कबरई	दमौरा	दमौरा
						कबरई		पचहरा
						कबरई		घुटवई
						कबरई		चकमरेला (गै०आ०)
					89	कबरई	डढ़हतमाफ	डढ़हतमाफ
					90	कबरई	किड़ारी	किड़ारी
						कबरई		बरीपुरा
					91	कबरई	चुरबरा	चुरबरा
					92	कबरई	कुम्हड़ौरामाफ	कुम्हड़ौरामाफ
					93	कबरई	कालीपहाड़ी	कालीपहाड़ी
					94	कबरई	गुगौरा	गुगौरा
1	श्रीनगर	श्रीनगर	श्रीनगर	श्रीनगर			आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 4315 (विविध पत्रावली)-2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा विकास खण्ड श्रीनगर अक्रियाशील हो जाने के कारण उसमें समाहित क्रमांक-1 से लेकर 46 तक सम्मिलित ग्राम पंचायतें यथावत् पूर्व विकास खण्ड कबरई में सम्मिलित की गई हैं।	
	श्रीनगर			टोटियाबरा (गै०आ०)				
2	श्रीनगर		बिलरही	बिलरही				
3	श्रीनगर		ढिकवाहा	ढिकवाहा				
4	श्रीनगर		मवई	मवई				
5	श्रीनगर		कैमाहा	कैमाहा				
6	श्रीनगर		इमिलिया	इमिलिया				
7	श्रीनगर		बिलखी	बिलखी				
8	श्रीनगर	भण्डरा	भण्डरा	भण्डरा				
	श्रीनगर			गोपालपुरा (गै०आ०)				
9	श्रीनगर		सिजरिया	सिजरिया				
10	श्रीनगर		डिगरिया	डिगरिया				
11	श्रीनगर		सिजवाहा	सिजवाहा				
12	श्रीनगर		ख्योरइया ज्योरइया	ख्योरइया ज्योरइया				
13	श्रीनगर		बरा	बरा				
14	श्रीनगर		तिंदौली	तिंदौली				
15	श्रीनगर		सलारपुर	सलारपुर				
16	श्रीनगर	सिजहरी	सिजहरी	सिजहरी				
17	श्रीनगर		बसौरा	बसौरा				

क्र० सं०	पूर्व स्थिति				क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायत वार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड / क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	1	2	3	4
18	श्रीनगर		रैपुराकलां	रैपुराकलां			आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 4315 (विविध पत्रावली)-2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा विकास खण्ड श्रीनगर अक्रियाशील हो जाने के कारण उसमें समाहित क्रमांक-1 से लेकर 46 तक सम्मिलित ग्राम पंचायतें यथावत् पूर्व विकास खण्ड कबरई में सम्मिलित की गई हैं।	
	श्रीनगर			बनियातला महानपुरा				
19	श्रीनगर		मिरतला	मिरतला				
	श्रीनगर			रहेलिया				
	श्रीनगर			बम्हौरी गुसाई				
20	श्रीनगर		मामना	मामना				
	श्रीनगर			मुड़ेहरा				
21	श्रीनगर		मझलवारा	मझलवारा				
22	श्रीनगर		पलका	पलका				
23	श्रीनगर		पवा	पवा				
	श्रीनगर			मुरानी				
24	श्रीनगर	पचपहरा	पचपहरा	पचपहरा				
25	श्रीनगर		करहराकलां	करहराकलां				
26	श्रीनगर		चाँदो	चाँदो				
	श्रीनगर			चन्दपुरा				
27	श्रीनगर		छिकहरा	छिकहरा				
28	श्रीनगर		नथूपुरा	नथूपुरा				
29	श्रीनगर		बरातपहाड़ी	बरातपहाड़ी				
30	श्रीनगर		बिलबई	बिलबई				
31	श्रीनगर	पिपरामाफ	पिपरामाफ	पिपरामाफ				
32	श्रीनगर		उरवारा	उरवारा				
33	श्रीनगर		चितैया	चितैया				
	श्रीनगर			दुड़ेया				
34	श्रीनगर		अतरारमाफ	अतरारमाफ				
	श्रीनगर			समशेरा फुटेरा				
35	श्रीनगर		लुहेड़ी	लुहेड़ी				
	श्रीनगर			हिलुवा				
36	श्रीनगर		ननौरा	ननौरा				
	श्रीनगर			करपहाड़िया				
	श्रीनगर			सेलामाफ				

क्र० सं०	पूर्व स्थिति				क्र० सं०	संशोधित स्थिति		
	विकास खण्ड/ क्षेत्र पंचायत का नाम	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम (न्याय पंचायत वार)	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम		विकास खण्ड/ क्षेत्र पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में सम्मिलित राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	1	2	3	4
37	श्रीनगर	पसवारा	पसवारा	पसवारा			आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 4315 (विविध पत्रावली)-2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा विकास खण्ड श्रीनगर अक्रियाशील हो जाने के कारण उसमें समाहित क्रमांक-1 से लेकर 46 तक सम्मिलित ग्राम पंचायतें यथावत् पूर्व विकास खण्ड कबरई में सम्मिलित की गई हैं।	
	श्रीनगर			थाना				
38	श्रीनगर		शाहपहाड़ी	शाहपहाड़ी				
39	श्रीनगर		बीजानगर	बीजानगर				
40	श्रीनगर		दमौरा	दमौरा				
	श्रीनगर			पचहरा				
	श्रीनगर			घुटवई				
	श्रीनगर			चकमरेला (गै0अ0)				
41	श्रीनगर		डढ़हतमाफ	डढ़हतमाफ				
42	श्रीनगर		किड़ारी	किड़ारी				
	श्रीनगर			बरीपुरा				
43	श्रीनगर		चुरबरा	चुरबरा				
44	श्रीनगर		कुम्हड़ौरामाफ	कुम्हड़ौरामाफ				
45	श्रीनगर		कालीपहाड़ी	कालीपहाड़ी				
46	श्रीनगर		गुगौरा	गुगौरा				

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 4/264/2017-4/135 (महोबा)-2014, दिनांक 5 जून, 2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,
किंजल सिंह,
निदेशक,
पंचायती राज, उ० प्र०।